

स्क्रिप कोड: BANKINDIA	स्क्रिप कोड: 532149
उपाध्यक्ष — लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि., एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई 400 051.	उपाध्यक्ष — लिस्टिंग विभाग, बीएसई लि., 25, पी. जे. टवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001.

प्रिय महोदय/महोदया,

फंड आधारित उधारी की सीमांत लागत (MCLR) – परिवर्तन
रेपो आधारित उधारी दर (RBLR) - कोई परिवर्तन नहीं
फिक्स्ड रेट स्प्रेड (FRS) – परिवर्तन
01.09.2025 से लागू।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, यह सूचित किया जाता है कि निधि की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 01.09.2025 से परिवर्तन किया गया है। वर्तमान एमसीएलआर इस प्रकार है:

दर प्रभावी डेट	ओवरनाइट एमसीएलआर	1 माह एमसीएलआर	3 माह एमसीएलआर	6 माह एमसीएलआर	1 वर्ष एमसीएलआर	3 वर्ष एमसीएलआर
01.08.2025	7.95%	8.40%	8.55%	8.80%	9.00%	9.15%

2. संशोधित MCLR इस प्रकार है:

दर प्रभावी डेट	ओवरनाइट एमसीएलआर	1 माह एमसीएलआर	3 माह एमसीएलआर	6 माह एमसीएलआर	1 वर्ष एमसीएलआर	3 वर्ष एमसीएलआर
01.09.2025	7.95%	8.30%	8.45%	8.70%	8.85%	9.00%

3. फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए फिक्स्ड रेट स्प्रेड (FRS) 1.50% लिया जाता है। 3 वर्षीय MCLR और FRS वाले फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए ब्याज दर 01.09.2025 से 10.50% है। फिक्स्ड रेट रिटेल लोन के लिए ROIFRS (10.50%) + लागू CRP फॉर्मेट में दर्शाया जाता है।

4. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त का ध्यान रखें।

भवदीय,

-हस्ताक्षर-

(राजेश वी. उपाध्या)
कम्पनी सचिव